



## \*प्रेस विज्ञप्ति\*



**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक अक्टूबर 29, 2022\***

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\***

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 214 वाहनों का चालान किया गया तथा 05 वाहनों से 3500/रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 37 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*पैदल गश्त अभियान-\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

**\*अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** 1.अभियुक्त नन्दलाल पुत्र रामप्यारे नि0 दुर्गापुर अदरौना थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 235/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त तुफानी पुत्र दुलारे भारती नि0 परागपुर थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 535/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** 1.अभियुक्त रामरतन पुत्र रमाशंकर नि0 सेमरहनी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 280/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 2.अभियुक्त अवधेश पुत्र जीतन नि0 खालिक गढ़ थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 281/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 3.अभियुक्त वत्स पुत्र बनहू साहनी नि0 रेढ़ी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 282/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 4.अभियुक्त मोलहू पुत्र झीनक नि0 तिकोनिया नर्सरी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 283/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना सोहगीबरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** 1.अभियुक्त नन्दकिशोर पुत्र रामराजन नि0 घोटहा थाना सोहगीबरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 25/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त तौलाने पुत्र चन्द्रभान नि0सेमरहवा थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 123/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** 1.अभियुक्त शैलेश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि० रूदौली थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 230/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** 1.अभियुक्ता कलावती पत्नी सूरज नि० बैठवलिया थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 28 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 536/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 2.अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से 90 शीशी नेपाली शराब व 01 अदद मो० सा० बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 537/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\***..अभियुक्तगण 1.राजेश पुत्र गोमती 2.रामबिलास पुत्र गोमती 3.बृजेश पुत्र गोमती 4.उमाशंकर पुत्र हरिहर 5.रमाशंकर पुत्र हरिहर नि० मिश्रौलिया थाना बृजमनगंज को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\***..अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से 04 बोरी चीनी बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 14 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

**\*जनपद में 28/29.10.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 48 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।\***